

Model: Duastro-2025-2026-Health

SrNo: 115-120-105-3261 / 995

Date: 19/02/2025

लिंग _____ : पुल्लिंग
जन्म तिथि _____ : 01/01/1999
दिन _____ : शुक्रवार
जन्म समय _____ : 13:01:00 घंटे
इष्ट _____ : 14:27:13 घटी
स्थान _____ : .Delhi
राज्य _____ : Delhi
देश _____ : India

अक्षांश _____ : 28:37:00 उत्तर
रेखांश _____ : 77:12:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____ : 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____ : -00:21:12 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____ : 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____ : 12:39:48 घंटे
वेलान्तर _____ : -00:03:19 घंटे
साम्पातिक काल _____ : 19:21:52 घंटे
सूर्योदय _____ : 07:14:06 घंटे
सूर्यास्त _____ : 17:35:11 घंटे
दिनमान _____ : 10:21:05 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____ : उत्तरायण
सूर्य स्थिति(गोल) _____ : दक्षिण
ऋतु _____ : शिशिर
सूर्य के अंश _____ : 16:35:04 धनु
लग्न के अंश _____ : 04:42:27 मेष

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____ : मेष - मंगल
राशि-स्वामी _____ : मिथुन - बुध
नक्षत्र-चरण _____ : मृगशिरा - 4
नक्षत्र स्वामी _____ : मंगल
योग _____ : ब्रह्म
करण _____ : विष्टि
गण _____ : देव
योनि _____ : सर्प
नाड़ी _____ : मध्य
वर्ण _____ : शूद्र
वश्य _____ : मानव
वर्ग _____ : मार्जार
युँजा _____ : पूर्व
हंसक _____ : वायु
जन्म नामाक्षर _____ : की-किशोर
पाया(राशि-नक्षत्र) _____ : ताम्र - स्वर्ण
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____ : मकर

चैत्रादि संवत / शक _____ : 2055 / 1920
मास _____ : पौष
पक्ष _____ : शुक्ल
सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 14
तिथि समाप्ति काल _____ : 11:01:20
जन्म तिथि _____ : 15
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : मृगशिरा
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 14:34:43 घंटे
जन्म नक्षत्र _____ : मृगशिरा
सूर्योदय कालीन योग _____ : शुक्ल
योग समाप्ति काल _____ : 09:29:25 घंटे
जन्म योग _____ : ब्रह्म
सूर्योदय कालीन करण _____ : वणिज
करण समाप्ति काल _____ : 11:01:20 घंटे
जन्म करण _____ : विष्टि

घात चक्र

मास _____ : आषाढ
तिथि _____ : 2-7-12
दिन _____ : सोमवार
नक्षत्र _____ : स्वाति
योग _____ : परिघ
करण _____ : कौलव
प्रहर _____ : 3
वर्ग _____ : मूषक
लग्न _____ : कर्क
सूर्य _____ : मीन
चन्द्र _____ : कुम्भ
मंगल _____ : मेष
बुध _____ : मकर
गुरु _____ : वृष
शुक्र _____ : मिथुन
शनि _____ : कुम्भ
राहु _____ : कर्क

ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			मेष	04:42:27	481:13:30	अश्विनी	2	1	मंगल	केतु	चंद्र	---
सूर्य			धनु	16:35:04	01:01:08	पूर्वाषाढा	1	20	गुरु	शुक्र	चंद्र	मित्र राशि
चंद्र			मिथु	05:42:56	14:37:14	मृगशिरा	4	5	बुध	मंगल	चंद्र	मित्र राशि
मंगल			कन्या	24:41:49	00:29:40	चित्रा	1	14	बुध	मंगल	राहु	शत्रु राशि
बुध			वृश्चि	27:52:03	01:23:59	ज्येष्ठा	4	18	मंगल	बुध	गुरु	सम राशि
गुरु			कुंभ	28:08:46	00:08:50	पूर्वाभाद्रपद	3	25	शनि	गुरु	शुक्र	सम राशि
शुक्र			मक	01:56:06	01:15:13	उत्तराषाढा	2	21	शनि	सूर्य	गुरु	मित्र राशि
शनि			मेष	02:56:02	00:00:18	अश्विनी	1	1	मंगल	केतु	शुक्र	नीच राशि
राहु	व		कर्क	28:59:17	00:06:42	आश्लेषा	4	9	चंद्र	बुध	शनि	शत्रु राशि
केतु	व		मक	28:59:17	00:06:42	धनिष्ठा	2	23	शनि	मंगल	शनि	शत्रु राशि
हर्ष			मक	17:07:59	00:03:08	श्रवण	3	22	शनि	चंद्र	शनि	---
नेप			मक	07:13:47	00:02:10	उत्तराषाढा	4	21	शनि	सूर्य	केतु	---
प्लूटो			वृश्चि	15:17:05	00:02:05	अनुराधा	4	17	मंगल	शनि	गुरु	---
दशम भाव			धनु	25:03:22	--	पूर्वाषाढा	--	20	गुरु	शुक्र	बुध	--


व - वकी स - स्थिर

अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त


राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:50:25


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



स्वास्थ्य, व्यक्तित्व एवं प्रकृति

आपके जन्म समय में लग्न में मेष राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी मंगल है। सामान्यतया मेष लग्न में उत्पन्न जातक साहसी पराक्रमी तेजस्वी तथा परिश्रमी होते हैं तथा अपने इन्हीं गुणों से वे जीवन में वांछित मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा अर्जित करने में समर्थ रहते हैं। ये अत्याधिक सक्रिय एवं क्रियाशील होते हैं तथा अपने इन्हीं गुणों से जीवन में इच्छित उन्नति प्राप्त करते हैं।

अतः इस लग्न के प्रभाव से आप साहसी परिश्रमी तथा पराक्रमी पुरुष होंगे तथा अपने शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों को परिश्रम एवं निर्भयता से सम्पन्न करेंगे। आप में स्वाभिमान का भाव भी विद्यमान रहेगा तथा स्वपरिश्रम तथा योग्यता से जीवन में मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा अर्जित करने में समर्थ होंगे।

आपके स्वभाव में प्रारंभ से ही तेजस्विता का भाव विद्यमान रहेगा फलतः यदा कदा आप अनावश्यक क्रोध एवं चंचलता का प्रदर्शन करेंगे। जीवन में आपको जन्म भूमि के अतिरिक्त अन्य स्थान में सफलता एवं उन्नति प्राप्त होगी तथा वहीं आपका जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होगा। साथ ही सांसारिक सुखोपभोग के साधनों को भी आप परिश्रम पूर्वक अर्जित करके सुख पूर्वक इनका उपभोग करने में समर्थ होंगे।

लग्न में शनि की स्थिति के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा तथा समय समय पर मानसिक व्याकुलता भी बनी रहेगी। यद्यपि आपको जीवन में काफी समस्याओं एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा परन्तु अपने परिश्रम एवं दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा आप इनका सामना तथा समाधान करने में समर्थ होंगे। आपकी प्रवृत्ति में उदारता तथा सहिष्णुता का भाव भी विद्यमान रहेगा तथा अवसरानुकूल अन्य जनों को आप अपना सहयोग प्रदान करेंगे। जिससे आपके प्रति लोगों के मन में आदर का भाव उत्पन्न होगा।

आपके सांसारिक कार्य यद्यपि विलम्ब से सिद्ध होंगे परन्तु गौरव एवं सम्मान बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको परिश्रम से उन्नति प्राप्त होगी तथा सामाजिक जनों के मध्य भी समय समय पर मान सम्मान मिलता रहेगा। आपको अपनी प्रवृत्ति का अन्य जनों के समक्ष सादगी पूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए तथा इसमें अनावश्यक दिखावे का समावेश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जीवन में आपको इच्छित सुखैश्वर्य एवं वैभव की प्राप्ति होगी।

इस प्रकार आप एक परिश्रमी, तेजस्वी, कार्य निकालने में चतुर परन्तु मन्द गति से कार्य करने वाले होंगे तथा जीवन में आवश्यक सुखों का उपभोग करने में समर्थ होंगे।

स्वास्थ्य - 2025

स्वास्थ्य की दृष्टि वर्ष का प्रारम्भ उत्तम रहेगा। शारीरिक ऊर्जा व कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। पूर्ण रूप से शारीरिक आरोग्यता बनी रहेगी परन्तु 29 मार्च के बाद द्वादशस्थ शनि के प्रभाव से आप छोटी-मोटी बीमारियों के कारण परेशान हो सकते हैं।

समय का सदुपयोग कर अपनी जीवनशैली को बेहतर बनाने की कोशिश करें। किसी आर्थिक मुद्दे को लेकर या किसी विरोधी के कारण दिमागी तनाव न पालें। चिड़-चिड़े न बनें अन्यथा इन सबका आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

जनवरी 2025 के लिए फलादेश

इस माह ग्रह, नक्षत्रों का संयोजन आपके स्वास्थ्य के मामलों के लिए बहुत अनुकूल और उत्तम फलदायक बना हुआ है। पहले से चले आ रहे बुखार और शीघ्र क्रोध की स्थिति तथा अचानक होने वाली बीमारियों से आपको काफी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त सबसे पुरानी बीमारियों से राहत के शुभ संकेत बन रहे हैं। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह माह बहुत अनुकूल माह होना चाहिए। इस माह के ग्रह योग के अनुसार एहतियात और सावधानी न रखने पर दुर्घटना या हिंसक चोट की स्थिति बन सकती है। इसलिए आप जहां तक हो सके अपनी रक्षा हेतु सावधानियां बरतें। दुर्घटना की संभावना आपके लिए आंशिक चिंता का कारण बन सकती है। सतर्कता बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

फरवरी 2025 के लिए फलादेश

इस माह में बन रहे ग्रह योग आपके स्वास्थ्य के लिए आंशिक प्रसन्नता लिए हुए हैं। इस माह में आपको गठिया, पाचन तंत्र, पेट फूलना, वायु रोग जैसी अनियमितताएं और पुराने रोग की वापसी होने का खतरा आपके लिए मुश्किल स्थिति बना रहा है। इन रोगों की चिकित्सा हेतु आपको चिकित्सा पद्धतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस माह में आपको अपनी मांसपेशियों में ऐंठन आदि की शिकायत होने की संभावना बन रही है। हालांकि यह रोग अल्पकाल के लिए प्रभावी हो रहे हैं परन्तु फिर भी आपको इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेना होगा। इस माह की घटनाएं आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बन रही हैं। इसलिए एहतियात बरतना आपके लिए अनुकूल रहेगा।

मार्च 2025 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं बना हुआ है। इस माह आपको सामान्य दुर्बलता का अनुभव हो सकता है। तथा इस माह आपके तंत्रिका विकार प्रभावी हो सकते हैं। अत्यधिक परिश्रम करने से थकावट होकर आपके स्वास्थ्य सुख में कमी होगी। अपनी स्वस्थता बनाए रखने के लिए आपको आवश्यक आराम करना चाहिए।

अपने शारीरिक तंत्र पर अनुचित दबाव डालने से बचना चाहिए। अपने कार्य से संबंधित गतिधियों का एक कार्यक्रम तैयार कर, कठोरता से इसका पालन कर आप स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस माह आपकी मांसपेशियों में घंटन हो सकती हैं। रोगों का शीघ्रता से ईलाज कराना आपके लिए हितकारी रहेगा।

अप्रैल 2025 के लिए फलादेश

ग्रहों की स्थिति इस माह आपके लिए सुखद और अनुकूल नहीं बन रही हैं। अतः ऐसे में सितारों का सहयोग मिलना आपके लिए कठिन होगा। इस माह अवधि में आपको सदी और सदी से होने वाले रोग होने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त इस अवधि में आपको इस प्रकार से होने वाले रोगों से विशेष बचाव के प्रयास करने होंगे। इस अवधि विशेष में छाती की पुरानी बीमारियां भी आपकी परेशानियों का कारण बन सकती हैं। सावधानी रखना हितकारी रहेगा। सदी, खांसी जैसे रोगों की गंभीरता से जांच कर इनकी जटिलताओं का समूल निवारण करना होगा। इसके अतिरिक्त इस अवधि विशेष में आपको मांसपेशियों में घंटन आदि की परेशानी हो सकती हैं। इस स्थिति में तुरंत ईलाज कराना आपके लिए हितकारी रहेगा। माह अवधि में बन रही ग्रह स्थिति के अनुसार आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सावधान रहना चाहिए।

मई 2025 के लिए फलादेश

आने वाले माह के दौरान बन रही ग्रह स्थिति आपके लिए बहुत उत्साहजनक नहीं रहेगी। इसलिए यह माह स्वास्थ्य के पक्ष से बहुत शुभ नहीं हैं। आपको बुखार, सूजन या शीघ्र होने वाली अन्य गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह माह आपके लिए परेशानियों भरा हो सकता है। किसी रोग के प्रभावी होने पर उपचार में किसी भी तरह की लापरवाही या एहतियात उपायों में देरी आपके स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर सकती हैं। सिर से संबंधित रोग होने की संभावना बन रही है। समय रहते उपचार कराने से स्वास्थ्य हानि अधिक नहीं होगी। एहतियात के रूप में आप अपने सिर के लिए किसी टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं।

जून 2025 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभदायक बनी हुई हैं। स्वास्थ्य के पक्ष से यह समय बहुत उत्तम बना हुआ है। गठिया, पेट फूलना, वायु रोग एवं पाचन तंत्र की शिकायतें जैसे पुराने रोगों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के न होने से आपको काफी राहत मिलेगी। यह माह स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। खांसी रोग प्रभावी हो सकता है। ऐसी जटिलताओं की गंभीरता से जांच कराते रहना होगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता आपको गंभीर रोगों से बचाएगी। किसी भी प्रकार की गंभीर स्वास्थ्य समस्या इस महीने आने की

द्य

प

प

प

संभावना नहीं बन रही हैं। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए इस माह में स्वास्थ्य चिंता का अन्य कोई कारण नहीं बन रहा है।

जुलाई 2025 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य को शुभता प्रदान कर अनुकूल योग बना रही है। आप अत्यधिक परिश्रम कर स्वयं पर व्यर्थ का दबाव डालने से बचें। इस विषय में सतर्क रहना लाभकारी रहेगा। आपको यह ध्यान से समझ लेना चाहिए और इसका सख्ती से पालन भी करना चाहिए कि आप अपने सामर्थ्य के अनुरूप परिश्रम करें। इसके विपरीत जाने पर आपको गंभीर रोगों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने कार्यों की एक सूची तैयार कर समय सारणी बना कर कार्य करना चाहिए। पुरानी बीमारियां जैसे-गठिया आदि रोगों के शांत रहने से आपको काफी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के लिए यह माह बहुत शुभ माह बना हुआ है। इस माह में एहतियात और बचाव करना लाभदायक रहेगा।

अगस्त 2025 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रह योगों का सूक्ष्मता से विचार करने पर सितारों की स्थिति आपके स्वास्थ्य सुख के लिए बेहतर परिणामदायक नहीं बन रही हैं। आपके पाचन अंगों में सरलता से विकार आ सकते हैं। जिससे आपको शारीरिक रोग शीघ्र हो सकते हैं। इस प्रकार की कठिनाईयों से बचने के लिए आपको अत्यधिक देखभाल, सावधानियों और ईलाज की आवश्यकता हो सकती है। शारीरिक अंगों के संवेदनशील हो जाने के कारण आपको खांसी, जुकाम और कफ आदि रोग जल्द हो सकते हैं। वास्तव में यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत सतर्कता का माह रहेगा। इस माह में आपको अपने स्वास्थ्य का अधिक से अधिक ध्यान रखना होगा।

सितम्बर 2025 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य के लिए इस माह ग्रह और भाग्य की शुभता नहीं बनी हुई है। अतः इस माह में रोग शीघ्र प्रभावी हो सकते हैं। बुखार, सूजन तथा अचानक से होने वाली गंभीर बीमारियां आपके स्वास्थ्य सुख में कमी कर सकती हैं। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य संवेदनशील बना हुआ है। शीघ्र उपचार लेना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ऐसा करने से रोग आपके नियंत्रण में रहेंगे। इस अवधि में आंशिक समय के लिए नेत्र संक्रमण रोग प्रभावी हो सकते हैं। मांसपेशियों में घंटन होना भी आपकी शारीरिक परेशानियों का कारण बनेगा। समय पर उपचार कराने और सतर्कता रखने से स्वास्थ्य विकारों में कमी आयेगी।

अक्टूबर 2025 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रह योग आपके स्वास्थ्य सुख में कमी का कारण बन रहे हैं। स्वास्थ्य की कमी आपकी दिक्कतों को बढ़ा सकती है। बुखार, सूजन एवं अचानक से होने वाले रोग

द्य ँ ँ ँ ँ

आपको अपने प्रभाव में जल्द ले सकते हैं। रोगों के प्रति संवेदनशीलता आपकी परेशानियों को बढ़ाएगी। रोगों को नियंत्रण में रखने के लिए शीघ्र उपचार कराना आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त नेत्र संक्रमणों के प्रति सतर्कता बनाए रख आप इन रोगों से बचाव रख सकते हैं। इस माह अवधि में मांसपेशियों में घंटन होने से आपकी अतिरिक्त परेशानियां बढ़ सकती हैं। एहतियात रखने और समय पर उपचार करने से रोग जटिल रोगों में परिवर्तित नहीं होंगे। स्वस्थ बने रहने के लिए आपको अपना अत्यधिक ख्याल रखना होगा।

नवम्बर 2025 के लिए फलादेश

इस माह में बन रही ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य सुख के लिए बहुत अनुकूल नहीं बन रही हैं। इस माह में अधिक परिश्रम और थकावट के कारण आपको सामान्य दुर्बलता और तंत्रिका विकार की समस्याएं होने की संभावना बन रही हैं। इस समय में आपको स्वयं को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। अपने शारीरिक तंत्र पर अनुचित दबाव डालने से आपको बचना होगा। सामान्य से अधिक मेहनत करने से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कार्यों के लिए अनुसूची बनाकर समय सारणी अनुसार जीवन यापन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस प्रकार के कार्यक्रमों का आपको सख्ती से पालन भी करना होगा। इसके अलावा आपको पैर और मांसपेशियों में घंटन की परेशानियां आ सकती हैं। इस स्थिति में आपको अतिरिक्त ध्यान और देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। ग्रह योग आपके प्रतिकूल बन रहे हैं। इसलिए इस समय में आपको अपना ख्याल रखना चाहिए।

दिसम्बर 2025 के लिए फलादेश

इस माह में बन रहे ग्रह, सितारे एवं योग यह निर्धारित कर रहे हैं कि इनकी स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं बन रही हैं। बवासीर और छाती की पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को इस समय मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में आपको विशेष ध्यान की जरूरत है अन्यथा रोगों के उपचार में बहुत अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। रोगों से संबंधित सावधानियों का बिना गलती के अनुसरण करना आवश्यक है। इस माह अवधि में मांसपेशियों में घंटन जैसी समस्याओं की संभावना बन रही है। उपचारों में किसी प्रकार की अनदेखी आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगी। ध्यान से रहें, यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ नहीं बना हुआ है।

स्वास्थ्य - 2026

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष मिला-जुला रहेगा। द्वादशस्थ शनि के कारण आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। मौसमजनित बीमारियों के कारण आप अस्वस्थ रह सकते हैं। यदि पहले से कोई बीमारी है तो परहेज की ज्यादा जरूरत है नहीं तो आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने दैनिक जीवन में अनुशासित भोजन अपनायें व लापरवाही न करें। किसी भी मुद्दे को लेकर आवश्यकता से अधिक चिंता न करें। सुबह जल्दी उठकर घूमना या व्यायाम करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा।

31 अक्टूबर के बाद समय अनुकूल हो रहा है। उस समय लग्न स्थान पर गुरु ग्रह के दृष्टि प्रभाव से आपके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित होगी जिससे आपकी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे।

जनवरी 2026 के लिए फलादेश

जहां तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है यह माह आपके लिए एक अच्छा माह रहेगा। सूर्य आपको असाधारण सुरक्षा और जीवन शक्ति प्रदान करेगा। छोटी बीमारियों को अनदेखा न करें अन्यथा यह बड़ी हो सकती है। स्वयं को इस माह रोग मुक्त रखने के लिए आप छोटी बीमारियों का समय रहते ईलाज करायें अन्यथा आरोग्य लाभ में काफी जटिल समस्या पैदा हो सकती है। शेष अन्य कोई गंभीर रोग होने की कोई संभावना नहीं है।

फरवरी 2026 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य सुख के पक्ष से यह माह आपके लिए एक अच्छा माह है। इस माह में सूर्य आपको अतिरिक्त साधारण सुरक्षा और जीवन शक्ति प्रदान करेगा। यह सुरक्षा और जीवन शक्ति आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगी। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत न रहें। इसके लिए आप अपना सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए पाचन तंत्र तथा वायु से होने वाले रोग के प्रति अतिरिक्त सावधानी बनाए रखें। इसके अलावा किसी भी प्रकार के छोटा सा दुःख होने पर, किसी भी समय हानि के बिना तुरंत ईलाज करायें। अन्यथा आपके लिए स्वस्थ होना जटिल मामला सिद्ध हो सकता है। यह आपके लिए एक धीमी और थकाऊ प्रक्रिया हो सकती है। इसके अलावा इस माह स्वास्थ्य विषयों को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। सरल, सामान्य सावधानियां रखना पर्याप्त होगा।

मार्च 2026 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह परिस्थितियां आपके स्वास्थ्य की अनुकूलता सुनिश्चित करेंगी। वास्तव में सूर्य आपके जीवन को सुरक्षा और जीवन शक्ति प्रदान कर आपकी आरोग्यता को बढ़ा रहे हैं। सूर्य शुभता से आप को बीमारियां शीघ्र अपने प्रभाव में ले सकती हैं। ग्रह शुभता होने से

घ

प

प

प

आप अपने स्वास्थ्य सुख को लेकर संतुष्ट रहेंगे। यदि किसी कारणवश आप के स्वास्थ्य में अनियमितता होती है तो फिर से स्वास्थ्य सुख प्राप्त करना आपके लिए एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है। एक छोटे रोग का ईलाज कराने में आपको लम्बा समय लग सकता है। माह अवधि में बन रहे ग्रह स्थिति योग आपके स्वास्थ्य संबंधी मामलों को नियंत्रित कर रहे हैं। उपचार कराने की स्थिति का सामना आपको न करना पड़े इसके लिए आपको सामान्य एहतियात रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त चिंता की कोई बात नहीं है।

अप्रैल 2026 के लिए फलादेश

इस माह आप अपने स्वास्थ्य को लेकर खास सावधानी बरतें। अन्यथा आपको विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। माह अवधि में आपको कोई गले आदि में फोड़ा या पाचन तंत्र में गिरावट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की किसी भी स्वास्थ्य अनियमितता के प्रति आपको गंभीर रहना होगा और रोगों के प्रति उदासीनता से बचना होगा। इस माह नक्षत्र और ग्रह स्थिति आपके बहुत अनुकूल नहीं हैं। इसलिए इस माह आपको गंभीर रोगों से बचने के लिए आपको रोग होने पर शीघ्र चिकित्सा करानी होगी। आपको किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी होगी। इसके अलावा एक अन्य कारण भी है कि आप अपने फेफड़ों से जुड़ी वेदनाओं को लेकर सावधानी बरतें। इस माह आपको कफ अथवा खांसी की समस्या हो सकती है। प्रारंभित उपचार से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं।

मई 2026 के लिए फलादेश

इस माह सूर्य आपको रोगों से मुक्त रखेगा। आपको असाधारण जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रदान करेगा। रोगों से लड़ने की शक्ति आपमें अधिक होने से आप रोगों के प्रभाव में शीघ्र नहीं आयेंगे। रोग ग्रस्त होने पर आपके स्वास्थ्य में तेजी के साथ लाभ होगा। सूर्य शुभता से आपको नेत्रों, अस्थियों, सिर, हृदय, प्राण शक्ति, रक्त तथा पित्त संबंधी आदि रोग प्रभावित नहीं कर पायेंगे। इस माह में आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी तथा स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। आंशिक रूप से आपको सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। अचानक से बुखार आना तथा शीघ्र क्रोध की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य में होने वाले विकारों को अनदेखा करने पर छोटे रोग गंभीर रोग में परिवर्तित हो सकते हैं। सावधान रहें।

जून 2026 के लिए फलादेश

इस माह आप अपने स्वास्थ्य में किसी प्रकार की अनियमितताओं को लेकर सावधान रहें। रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होने के कारण आप रोगों के प्रभाव में शीघ्र आ सकते हैं। स्वास्थ्य की कमी आपको कुछ वेदनाओं की स्थिति दे सकती है। विशेष रूप से इस माह की ग्रह स्थिति आपको पाचन तंत्र, गठिया, वायु रोग और पुरानी बीमारियों से ग्रस्त कर सकती है। हृदय

द्य ँ ँ ँ ँ

संबंधित रोगों की समय समय पर जांच कराते रहना आपके लिए हितकारी रहेगा। स्वास्थ्य विकार होने पर चिकित्सा सलाह और उपचार में देरी न करें। इसके अतिरिक्त आपको गले से संबंधित रोगों की भी सावधानी से जांच करानी चाहिए। सतर्कता उपचार से बेहतर रहेगी।

जुलाई 2026 के लिए फलादेश

इस माह सूर्य आपको असाधारण शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान कर रहा है। सूर्य शुभता आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेगी। शारीरिक कमजोरी और तंत्रिका संबंधी विकार संबंधित स्वास्थ्य की जांच कराते रहना चाहिए। इस माह आप अपने ऊपर अत्यधिक तनाव न लें। आपकी यह प्रवृत्ति मजबूत शारीरिक शक्ति के बावजूद स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकती है। व्यर्थ का पराक्रम दिखाते हुए स्वयं को स्वस्थ दिखाना आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। अस्थमा और पानी से होने वाले रोगों से बचाव के लिए सामान्य तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। रोग ग्रस्त होने पर शीघ्र चिकित्सा लेनी लाभकारी रहेगी। यदि आप थकावट और अत्यधिक तनाव से बचाव करते हैं तो आपको कोई गंभीर खतरा नहीं होगा।

अगस्त 2026 के लिए फलादेश

इस माह सूर्य आपको असाधारण शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान करेगा। जिससे आप सूर्य की सुरक्षात्मक शक्तियों का पूरा लाभ प्राप्त होने की आशा कर सकते हैं। इस अवधि में आपको पाचन अंगों में विकार एवं जुकाम से ग्रस्त होने की संभावना है। सूर्य आपकी बीमारियों को काफी हद तक नियंत्रित रखेगा। केवल सामान्य सावधानी बरतने की आवश्यकता है। फिर भी रोगों का शीघ्रता से ईलाज करायें और अनावश्यक रूप से देरी न करें। रोगों का पूर्ण उपचार न कराना और स्वयं को स्वस्थ मानना आपके रोगों को बढ़ा सकता है। एक छोटे से दुःख का भी शीघ्रता से ईलाज करायें और अनावश्यक देरी करने करने से बचें। अस्थमा और छाती के रोगों पर केवल कुछ सावधानी रख नियंत्रण रख सकते हैं। बचाव करने से बड़े रोग प्रभावी नहीं हो पायेंगे।

सितम्बर 2026 के लिए फलादेश

इस माह आप स्वयं में ऊर्जा और जीवन शक्ति का अनुभव करेंगे। सूर्य की शुभता आपको किसी भी प्रकार की गंभीर वेदनाओं से मुक्त रखेगी। अचानक से होने वाले रोगों से आपका बचाव होगा। इस छोटी अवधि में बड़ी बीमारियां काफी हद तक नियंत्रण में रहेंगी। परन्तु फिर भी आप स्वास्थ्य अनियमितताओं को बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उपचार से बचाव बेहतर रहेगा। स्वस्थता प्राप्त करना आपके लिए एक लम्बी और मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए एक छोटी सी बीमारी से पीड़ित होने पर शीघ्र चिकित्सा उपचार कराना आपके लिए एक अच्छा विचार होगा। यदि आप गंभीर बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं तो आपको इस विचार का सख्ती से पालन करना चाहिए।

अक्तूबर 2026 के लिए फलादेश

इस महीने सूर्य असाधारण शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान कर आपको हर प्रकार की गंभीर वेदनाओं से मुक्त रखेगा। यही कारण है कि आपको कब्ज, पेचिश, पेट से संबंधित आदि बीमारियों से बचाव के लिए व्यायाम करना चाहिए। क्योंकि आपके पीड़ित हो जाने पर स्वास्थ्य प्राप्ति की प्रक्रिया बहुत ही धीमी और थकाऊ हो सकते हैं। इस माह की शुभ ग्रह स्थिति आपको गठिया और पाचन संबंधी रोग, वायु रोग और पुरानी बीमारियों से मुक्त रखेगी। अत्यधिक भोग से दूर रहना आपके लिए इस माह बहुत अच्छा रहेगा।

नवम्बर 2026 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रह योग काफी हद तक आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेंगे। सूर्य आपको असाधारण जीवन शक्ति प्रदान करेगा। यह शक्ति आपके चारों और सुरक्षा चक्र का कार्य करेगी। दुर्बलता, थकावट और अत्यधिक परिश्रम करने से होने वाले विकारों और तंत्रिका तंत्र के विकार आपको कष्ट दे सकते हैं। इस माह ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने के कारण आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन फिर भी आप आप स्वयं रोगों को आमंत्रित न करें। सामान्य सावधानी लें। जिससे आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकें। अपनी ऊर्जा शक्ति का उचित उपयोग करना इस माह आपके लिए उपयोगी रहेगी।

दिसम्बर 2026 के लिए फलादेश

सूर्य इस माह आपको असाधारण शक्ति और जीवन सुरक्षा प्रदान करेगा। इस माह आपको यौन अंगों में बीमारी होने की संभावना बन रही हैं। समय रहते जांच कराते रहें। इसके अतिरिक्त इस माह आप अन्य किसी भी प्रकार के रोग प्रभाव से आप मुक्त रहेंगे। छोटी बीमारियों के भी प्रभावी होने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहने वाली जीवन शैली को आपको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस माह की स्थिति आपको एक उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के योग बना रही हैं। यदि आप पीड़ित होते हैं तो यह आपकी लापरवाही होगी और ऐसे में स्वस्थ होना आपके लिए एक बहुत ही धीमी और क्रमिक प्रक्रिया होगी। सामान्य स्वस्थता को बनाए रखने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा।